

GEOGRAPHY

Paper - I (Physical Geography)

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Part-A

1. (i) Earth-core. भू-कोश।
(ii) Fault. भ्रंश।
(iv) Monadnócks. मोनेडनॉक्स।
(vi) Insellburg. इन्सेलबर्ग।
(viii) Precipitation वर्षण।
(x) Oceanic deposits महासागरीय निक्षेप।
- (iii) Plate textonic. प्लेट विवर्तनिकी।
(v) Volanic-cone. ज्वालामुखी शंकु।
(vii) Ozone layer ओजोन परत।
(ix) Spring tide. वृहत ज्वार।

Part-B

Unit-I

2. Explain the Solar System. सौर मण्डल को समझाइये।
3. Explain zones of interior of the Earth according to Sues.
स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आन्तरिक पेटियों को समझाइये।

Unit-II

4. What are the causes of Earthquakes? भूकम्प आने के क्या क्या कारण है?
5. Give characteristics of Igneous Rocks. आग्नेय चट्टानों की विशेषताएँ बताइये।

Unit-III

6. Explain the Heat Balance of Earth. पृथ्वी के ऊष्मा सन्तुलन को समझाइये।
7. Explain the various types of Coral Reefs.
विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियों का उल्लेख कीजिये।

PART-C

Unit-I

8. Critically discuss the Wegener's theory of continental Drift.
वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

Or

What is Isostasy? Discuss the Pratt and Airy concept of Isostasy.
समस्थिति क्या है? प्राट व एअरी के विचारों की व्याख्या कीजिये।

Unit-II

9. Describe the landforms formed due to Volcanoes.
ज्वालामुखी से उत्पन्न विभिन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिये।

Or

Describe the various erosional land forms associated with Aeolian topography.
पवन निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिये।

Unit-III

10. Discuss the main theor is of the Origin of Temperate Cyclones.
शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की उत्पत्ति सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये।

Or

What are Ocean Deposits? Provide a detail account of their distribution on he Ocean floor.

समुद्री निक्षेप क्या है? महासागरीय तेल पर इसके वितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिये।

<http://questionpaperresult.com/>